



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 32]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 8, 2004/पौष 18, 1925

No. 32]

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 8, 2004/PAUSA 18, 1925

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

(सड़क स्कंध)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 जनवरी, 2004

का.आ. 37(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि तमिलनाडु राज्य में चेंगलपट्टूर - टिण्डीवनम खण्ड में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 45 को चार लेन का बनाने के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे दी गई अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ;

उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर आक्षेप कर सकेगा ;

ऐसा प्रत्येक आक्षेप सक्षम प्राधिकारी अर्थात् विशेष जिला राजस्व अधिकारी, जिला कांचीपुरम और तिरुवेल्लूर, तमिलनाडु को किया जाएगा और उसमें उसके आधार उपवर्णित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसे सभी आक्षेपों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा ;

सक्षम प्राधिकारी द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उपधारा (2) के अधीन किया गया कोई आदेश अंतिम होगा ;

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के भू-रेखांक और अन्य ब्यौरे उपलब्ध हैं और उनका सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है ।

## अनुसूची

जिला : कांचीपुरम

तालुक : मदुरंतगम

गाँव का नाम	ब्लॉक सं./वार्ड सं.	पुरानी सर्वेक्षण सं./उप मण्डल	टाउन सर्वेक्षण सं. और उप मण्डल	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	अर्जन किए जाने की सीमा (वर्ग मीटर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
मदुरंतगम	ए/57	161-4 बी 161-2 161-3	8-4 पार्ट	निजी	नम	1200
		161-1	8-5 पार्ट	निजी	नम	400
		169-2बी 169-1सी 169-3 169-4बी	8-6 पार्ट	निजी	नम	2200
		169-5बी	8-7 पार्ट	निजी	नम	1040
		163-5 162-1	10-4 पार्ट	निजी	नम	1350
		166-2 167-1 167-3	12-3 पार्ट	निजी	नम	10200
		175	13-1	निजी	नम	26500
		209-1बी पार्ट	13-2	निजी	नम	150
		168-2ए	14-2	निजी	नम	5600
		168-2बी	14-3	निजी	नम	6000
		173-2सी	14-5	निजी	नम	1800
		172-1सी	14-6	निजी	नम	1500
		172-1ए	14-7	निजी	नम	1550
		173-2ए	14-8	निजी	नम	2300
		172-2	14-9	निजी	नम	1600
		172-3ए 172-4ए	14-10	निजी	नम	1400
		172-4बी  173-2बी  172-1बी  172-3बी	14-11	निजी	नम	450

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		172-3सी	14-12	निजी	नम	600
		172-4सी	14-13	निजी	नम	100
		171-1	15-1	निजी	नम	3200
		145-2ए	15-4	निजी	नम	1400
		145-2बी	15-5	निजी	नम	1450
		145-1	15-6	निजी	नम	3650
		143-1ए	15-8	निजी	नम	2000
		143-2ए	15-9	निजी	नम	2800
		141-1ए	16-1	निजी	नम	1517
		141-2ए				
		141-1बी	16-2	निजी	नम	3400
		141-2बी				
		141-3ए				
		141-4ए				
		141-5ए1				
		141-3बी	16-3	निजी	नम	1188
		141-4बी				
		141-5बी1				
		213-1ए	20-4	निजी	नम	100
		212-1ए	20-3	निजी	नम	2400
		210-1ए	20-2	निजी	नम	3200
		210-2ए	20-1	निजी	नम	22400
		178-1ए	21-1	निजी	नम	10500
		178-3ए				
		176	21-2	निजी	नम	11200
		177				
		178-2				
		209-1ए				
		209-1बी				
		181-3	22-1	निजी	नम	1400
		181-4ए	22-2	निजी	नम	3140
		180-1ए				
		181-2	22-3	निजी	नम	210

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		181-1ए	22-4	निजी	नम	500
		208-2 207	25-1 पार्ट	निजी	नम	50
		206-2ए 206-2बी	25-2	निजी	नम	1950
		206-3बी1 206-3बी2 206-4	25-3	निजी	नम	3050
		212/2बी  212/1सी	25-4	निजी	नम	1590
		215-1बी1 215/1बी2 215/1बी 3	25-5	निजी	नम	300
		213-2ए3	25-6	निजी	नम	700
		215/5बी 2 215/2बी	25-7	निजी	नम	288
		215/2बी पार्ट 215/6बी	25-8	निजी	नम	288
		215/2बी पार्ट 215/6बी	25-9	निजी	मकान स्थल	24
		215-5बी 3 215-5बी 4 215/5बी 5 215/6सी 215/6डी 215/6ई	25-10	निजी	मकान स्थल	810
		215/5बी 1 215/2ए 215/3 215/6ए	25-11	निजी	मकान स्थल	1460
		215/4	25-12	निजी	मकान स्थल	640
		179-2बी	27-1	निजी	नम	850
		179-1बी	27-2	निजी	नम	350
		204-1बी	27-3	निजी	नम	2600
		204-2ए2	27-4	निजी	नम	1128
		204-2बी 2	27-5	निजी	नम	972
		205 206-1बी	27-6	निजी	नम	5300

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		202-1	29-4	निजी	नम	700
		202-2				
		201-2बी	29-3 पार्ट	निजी	नम	1600
		180-1सी	31-1	निजी	नम	2000
		180-2बी				
	ए/53	182-6बी				
		182-5बी	31-2	निजी	नम	300
		239-1 पार्ट	56	निजी	नम	345
		239/1 पार्ट	57	निजी	नम	235
		238/1	58 पार्ट	निजी	नम	45
		220/1ई	121 पार्ट	निजी	मकान स्थल	49
		220/1डी	122 पार्ट	निजी	मकान स्थल	54
		220/1सी	123 पार्ट	निजी	मकान स्थल	59
		220/1बी	124 पार्ट	निजी	मकान स्थल	65
		220/1ए	125 पार्ट	निजी	मकान स्थल	79
		220/2	126 पार्ट	निजी	मकान स्थल	372
		219/3	127 पार्ट	निजी	मकान स्थल	127
		217	1-1 पार्ट	निजी	नम	238
	ए/60	219-1ए	1-4 पार्ट	निजी	नम	186
		219-1बी				
		219-2	1-6 पार्ट	निजी	नम	48

[फा. सं. आरडब्ल्यू/एनएच-37011/6/99-यूस(डी.1)]

ए.वी. सिंह, सचिव

85 GI/04-2

**MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS****(ROADS WING)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 8th January, 2004

**S.O. 37(E).—** In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48/1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which has been given in the Schedule below, is required for four-laning of National Highway No.45 between Chengalpattu – Tindivanam Section in the State of Tamil Nadu, hereby declares its intention to acquire such land;

Any person interested in the land may, within twenty one days from the date of publication of this notification, in the Official Gazette raise objection to the use of the land for the aforesaid purpose;

Every such objection shall be made to the competent authority, namely, the Special District Revenue Officer, Kanchipuram and Thiruvallur Districts, Kanchipuram, Tamil Nadu and shall set out the grounds thereof and the competent authority shall give the objector the opportunity of being heard either in person or through legal practitioner and may, after hearing all such objections and after making such further inquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections;

Any order made by the competent authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final;

The land plans and other details of lands covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the office of the competent authority.

## SCHEDULE

District : KANCHEEPURAM

Taluk : MADURANTAGAM

Name of the Village	Block No./ Ward No.	Old Survey No./Sub division	Town Survey No. & sub division	Type of land	Nature of Land	Extent to be acquired (in Sq.mtrs)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Madurantagam	A/57	161-4B 161-2 161-3	8-4 Part	Private	Wet	1200
		161-1	8-5 Part	Private	Wet	400
		169-2B 169-1C 169-3 169-4B	8-6 Part	Private	Wet	2200
		169-5B	8-7 Part	Private	Wet	1040
		163-5 162-1	10-4 Part	Private	Wet	1350
		166-2 167-1 167-3	12-3 Part	Private	Wet	10200
		175	13-1	Private	Wet	26500
		209-1B Part	13-2	Private	Wet	150
		168-2A	14-2	Private	Wet	5600
		168-2B	14-3	Private	Wet	6000
		173-2C	14-5	Private	Wet	1800
		172-1C	14-6	Private	Wet	1500
		172-1A	14-7	Private	Wet	1550
		173-2A	14-8	Private	Wet	2300
		172-2	14-9	Private	Wet	1600
		172-3A 172-4A	14-10	Private	Wet	1400
		172-4B 173-2B 172-1B 172-3B	14-11	Private	Wet	450
		172-3C	14-12	Private	Wet	600
		172-4C	14-13	Private	Wet	100
		171-1	15-1	Private	Wet	3200
		145-2A	15-4	Private	Wet	1400
		145-2B	15-5	Private	Wet	1450

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		145-1	15-6	Private	Wet	3650
		143-1A	15-8	Private	Wet	2000
		143-2A	15-9	Private	Wet	2800
		141-1A	16-1	Private	Wet	1517
		141-2A				
		141-1B	16-2	Private	Wet	3400
		141-2B				
		141-3A				
		141-4A				
		141-5A1				
		141-3B	16-3	Private	Wet	1188
		141-4B				
		141-5B1				
		213-1A	20-4	Private	Wet	100
		212-1A	20-3	Private	Wet	2400
		210-1A	20-2	Private	Wet	3200
		210-2A	20-1	Private	Wet	22400
		178-1A	21-1	Private	Wet	10500
		178-3A				
		176	21-2	Private	Wet	11200
		177				
		178-2				
		209-1A				
		209-1B				
		181-3	22-1	Private	Wet	1400
		181-4A	22-2	Private	Wet	3140
		180-1A				
		181-2	22-3	Private	Wet	210
		181-1A	22-4	Private	Wet	500
		208-2	25-1 Part	Private	Wet	50
		207				
		206-2A	25-2	Private	Wet	1950
		206-2B				
		206-3B1	25-3	Private	Wet	3050
		206-3B2				
		206-4				
		212/2B	25-4	Private	Wet	1590
		212/1C				
		215-1B1	25-5	Private	Wet	300
		215/1B2				
		215/1B3				
		213-2A3	25-6	Private	Wet	700
		215/5B2	25-7	Private	Wet	288
		215/2B				



(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		215/2B Part 215/6B	25-8	Private	Wet	288
		215/2B Part 215/6B	25-9	Private	House Site	24
		215-5B3 215-5B4 215/5B5 215/6C 215/6D 215/6E	25-10	Private	House Site	810
		215/5B1 215/2A 215/3 215/6A	25-11	Private	House Site	1460
		215/4	25-12	Private	House Site	640
		179-2B	27-1	Private	Wet	850
		179-1B	27-2	Private	Wet	350
		204-1B	27-3	Private	Wet	2600
		204-2A2	27-4	Private	Wet	1128
		204-2B2	27-5	Private	Wet	972
		205 206-1B	27-6	Private	Wet	5300
		202-1 202-2	29-4	Private	Wet	700
		201-2B	29-3 Part	Private	Wet	1600
		180-1C 180-2B 182-6B	31-1	Private	Wet	2000
		182-5B	31-2	Private	Wet	300
	A/53	239-1 Part	56	Private	Wet	345
		239/1 Part	57	Private	Wet	235
		238/1	58 Part	Private	Wet	45
		220/1E	121 Part	Private	House Site	49
		220/1D	122 Part	Private	House Site	54
		220/1C	123 Part	Private	House Site	59
		220/1B	124 Part	Private	House Site	65
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

		220/1A	125 Part	Private	House Site	79
		220/2	126 Part	Private	House Site	372
		219/3	127 Part	Private	House Site	127
	A/60	217	1-1 Part	Private	Wet	238
		219-1A 219-1B	1-4 Part	Private	Wet	186
		219-2	1-6 Part	Private	Wet	48

[F. No. RW/NH-37011/6/99-US(D.1)]

A. V. SINGH, Secy.